

## सर्व सुख हरि शरणागत जान

जगत मे देखी झूठी शान  
सर्व सुख हरि शरणागत जान

चाहे काशी मथुरा जावो,गंगा करो स्नान  
त्रिवेणी तीर्थ मे न्हावो,करलो जतन तमाम

अलख तणो मानव तन मिलियो,अद्भुत रचना जान  
खलक बीच मे खरच दियो है,पडी नही पहचान

हाथ पांव सु सुकृत करले,मुख से भजले राम  
मन चंचल ने वस मे करले,हो जा तु उपराम

बार-बार तुमको समझावे,शास्त्र वेद पुराण  
सदानन्द कहे राम सुमरता,कोडी लागे ना दाम

रचनाकार:-स्वामी सदानन्द जोधपुर  
M.9460282429

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/14486/title/sarv-sukh-hari-sharnaghat-jaan>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |